

SATIN CREDITCARE NETWORK LTD. Reaching out!

July 12, 2020

To,

The Manager,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400051

The Manager BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400023

Scrip Code: SATIN Scrip Code: 539404

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copies of newspaper advertisements for 30th Annual General Meeting (AGM) / Book Closure and e-Voting information

In continuation of our letter dated July 11, 2020, we enclose copies of the advertisements published on July 12, 2020, in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), with respect to:

- Completion of dispatch of notices of the AGM and Annual Report for FY 2019-20;
- Book Closure information; and
- e-Voting information relating to the AGM.

We request you to take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully, For Satin Creditcare Network Limited

Adhish Swaroop Company Secretary & Compliance Officer

Encl. as above

Corporate Office:

1st and 3rd Floor, Plot No 97, Sector-44, Gurugram - 122003 Haryana, India **Registered Office:**

5th Floor, Kundan Bhawan Azadpur Commercial Complex, Azadpur, New Delhi - 110033, India CIN : L65991DL1990PLC041796 Landline No : 0124-4715400

E-Mail ID : info@satincreditcare.com
Website : www.satincreditcare.com

FE SUNDAY

PNB Housing Fin to seek shareholders' nod to raise up to ₹45k cr

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 11

PNB HOUSING FINANCE said it

PNB HOUSING FINANCE said it would seek shareholders approval next month to raise up to ₹45,000 croer through debt securities. The company's annual general meeting is scheduled to take place on August 5. Shareholders are being requested to authorise the board of directors to offer, from time to time, the subscription of redeemable, secured/unsecured non-convertible debentures (NCDs) aggregating up to

redeemable, secured/unsecured non-convertible debentures (NCDs) aggregating up to \$45,000 crore in one or more tranches, PNB Housing Finance said in a regulatory filing. The company may Issue the bonds through private placement orby way of public issue.

Ason March 31, bonds/non-convertible debentures constitute significant portion of the total borrowings of the company, I said. Borrowings through these instruments facilitate the raising of resource in a highly flexible and requirement the current year as well to meet lending requirements. It is the refore proposed that the membrane refore refore proposed that the membrane refore ref

the current year as well to meet lending requirements. It is the refore proposed that the members authorise the board to bornow money through NCDs up to ₹45,000 croe outstanding at anytime through private placement offer letter and/or by way of public issue from time to time; PNB Housing Finance sald. In 2019-20, the company had net interest income of ₹2,308 crore, registering growth of 1296 from a year ago. However, disbursements in PY20 fell by 48% to ₹18,626 crore. The assets undermanagement dipped 29% to ₹83,346 crore as on March 31.As much as \$296 of the AUM comprised retail assets. The company promoted by the country's second-largest state owned lender Punjab National Bank (PNB), it is annual report said that 2019-annual cropt staff that 2019-annual cropt staff that 2019-annual report said that 2019annual report said that 2019 20 was a challenging year for the sector as well as the company.

"We focused on strengthen-ing our balance sheet. With a nig du balante sheet. Whi a prudent sourcing strategy, we maintained a healthy liquidity position and built a strong deposit franchise, considered the second largest in the mar-ket, it said.

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Saturday appreciated the efforts of the Centre, state PM lauds Centre, Delhi govt for Covid control in capital

Delhi and directed that similar approach be adopted by other the pandemic in the entire NCR approach be adopted by other the pandemic in the entire NCR meeting to review the corons a statement from the Prime and local authorities in containing the Covid-19 situation in

SIGNATURE

Minister's Office said. The PM reiterated the need to observe personal hygiene and social discipline in public places. Modi said the awareness

about the pandemic should be disseminated widely and a continuous emphasis on prevent-ing the spread of the infection should be laid.

NEWS



LICENCE NO.: 89 OF 2019 DATED 02.08.2019 HRERA NO.: 77 OF 2019 DATED 31.12.2019 https://harvanarera.oov.in/

SIGNATUREGLOBAL PROXIMA I AFFORDABLE GROUP HOUSING

List of application numbers of successful applicants in the draw of flats in SignatureGlobal Proxima I, Residential Apartments

			BHK T	YPE-1	(581.3	96 Sq.	Ft.)						ZBHK T	YPE-2	(588.	586 Sq.	Ft)		
93	1095	1799	2232	2460	2628	2892	3249	4646	7900	202	1139	1858	2311	2568	2902	3734	6259	6840	780
136	1108	1860	2244	2461	2636	2913	3300	4673	50019	203	1319	1863	2316	2574	2939	3763	6716	6844	782
186	1126	1864	2246	2471	2638	2921	3338	5296	50057	241	1341	1865	2320	2575	2978	3776	6722	6847	783
229	1142	1886	2252	2512	2643	2933	3380	5520	50069	290	1356	1881	2326	2593	2982	3787	6724	6851	786
306	1379	1901	2265	2518	2649	2936	3417	5563	50071	352	1359	1882	2330	2618	3075	3914	6727	6861	787
353	1380	1907	2271	2521	2651	2937	3418	6260	50141	567	1350	1890	2333	2619	3111	4331	6731	6863	500
354	1381	1925	2279	2530	2658	2938	3438	6711	50160	599	1377	1904	2334	2637	3124	4349	6745	6871	500
390	1482	1958	2280	2537	2666	2962	3533	6759	50167	656	1432	1927	2337	2644	3149	4364	6754	7519	500
392	1485	1986	2289	2541	2669	2967	3556	6773	50318	658	1437	1957	2339	2662	3158	4374	6756	7520	500
394	1619	1989	2312	2543	2704	2979	3570	6783	50375	677	1439	2010	2353	2686	3330	4384	6758	7521	500
433	1621	2005	2395	2551	2707	2980	3706	6786		714	1440	2011	2356	2703	3390	4385	6781	7525	500
582	1678	2024	2398	2570	2761	3097	3775	6799		763	1452	2015	2397	2709	3464	4388	6782	7548	501
605 609	1679 1702	2082 2146	2400	2586 2588	2773	3098	3923 4365	6872 7802		813	1478	2019	2401	2718	3470	4611	6788	7550	501
		2146	2434	2588	2839	3126		7805		819	1568	2023	2429	2720	3512	4632	6794	7586	501
762 870	1782	2217	2440	2592	2865	3143	4366 4372	7823		862	1569	2034	2442	2725	3542	4638	6797	7592	501
1035	1792	2219	2440	2617	2885	3155	4606	7832		871	1571	2038	2445	2732	3544	4651	6801	7606	501
1083	1798	2220	2458	2625	2887	3186	4627	7878		877	1676	2116	2455	2735	3555	4654	6804	7614	501
1000	1100	LECO	2400	LULU	2001	0100	1001	1010	_	894	1683	2137	2459	2737	3604	4655	6807	7616	501
	9	внк т	/DE 4	E01 2	00 Carl	A 1 1928	TIME	LICT	-	901	1684	2142	2473	2738	3616	4683	6808	7622	501
_		BHK I	_		90 SQ.I	_		LIST		906	1708	2143	2474	2740	3645	4687	6809	7642	501
1.622			23	030		3	838			929	1714	2172	2475	2760	3646	4689	6810	7658	501
					-					938	1753	2185	2478	2768	3649	5237	6811	7659	501
			2BHK T	YPE-3	(598.2)	20 Sq.	Ft)			1053	1754	2187	2480	2774	3661	5282	6819	7661	501
19	878	1455	2045	2340	2565	2895	3639	5562	50106	1056	1761	2259	2482	2776	3672	5293	6825	7673	502
176	900	1475	2047	2358	2581	2915	3655	6822	50142	1067	1777	2266	2484	2808	3674	5507	6829	7685	502
179	937	1618	2050	2382	2603	2920	3656	6823	50148	1081	1778	2270	2486	2856	3685	5539	6830	7690	502
226	949	1699	2081	2387	2633	2968	3669	6824	50157	1085	1779	2283	2511	2868	3686	6210	6834	7692	502
310	950	1703	2136	2390	2663	3065	3681	6859	50158	1116	1784	2301	2513	2878	3687	6217	6835	7693	503
317	969	1707	2161	2396	2684	3108	3722	7627	50177	1134	1794	2304	2516	2882	3688	6228	6838	7697	503
319	994	1711	2162	2402	2700	3176	3739	7833	50253	1137	1850	2307	2555	2897	3723	6256	6839	7700	503
331	995	1770	2163	2405	2750	3179	3946	7835	50296	1131	1030	6307	2000	2097	3123	0230	0039	7700	303
350	999	1771	2229	2424	2753	3215	3953	7837	50351		_			_	-			100	
366	1011	1909	2231	2425	2782	3340	4348	7838	50364			BHK T	YPE-2 (588.5	86 Sq	.Ft.) WA	ITING	LIST	
373	1019	1910	2237	2431	2783	3381	4367	7853		1.2472	5.1	50053	9.2681	13.1	1126	17, 1887	21.50	ynos o	5. 463
618	1024	1945	2254	2493	2792	3387	4386	7854		2.6836		50373	10.2923	14.7		18, 2689	22.19		9. 403 8. 145
625	1073	2002	2317	2500	2003	3434	4605	50055		2.6836 3.2383		1612	10.2923	15.2		18. 2689 19. 2523	22.19		2, 145
667	1122	2003	2318	2510	2805	3436	4607	50061											
683	1140	2020	2325	2515	2806	3437	4653	50065		4.4361	8.	3764	12.2178	16.3	1142	20.6818	24.14	100	
702	1175	2021	2327	2534	2821	3569	4675	50073								169 Sg.			

815	1344	2043	2338	2563	2893	3625	5559	50093	
	28	HK T	YPE-3 (598.22	0 Sq.F	t.) W	AITING	LIST	
1.1760	8.2	112	15.757	22.96	6 2	9. 1946	36, 27	12 4	3.3166
2.2766	9.2	93	16.1849	23.30	32 3	0.2842	37.30	116	
3, 356	10.	9096	17.1765	24.23	35 3	1.2615	38, 81	7	
4.803	11.3	9605	18 50146	25.68	196 3	2.3651	39.10	112	
5. 1338	12.5	5295	19.1762	26.78	104 3	3. 2927	40.90	17	
6.3103	13.	2692	20.2884	27.31	09 3	4.2336	41.60	24	
7.1463	14.7	7687	21.2380	28.36	54 2	5.95	42.20	01	

2BHK + STORE (645.345 Sq.Ft.) MC 7013 7041 7051 7052 7064 7065

SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED 1 CIN: U70100DL2000PTC104787
Regd. Off.: Unit No. 1304 at 13th Floor Dr. Gogal Des Bhavan, 28 Bazakhamba Road, New Delhi-110001
Corp. Off.: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City - 1, Gunzam, Haprana-122001
Email: customercare@signatureglobal.in, Ph.: 0 124-4906200, 9311144624

	TEAR ENDED	ON MARCH	HE QUARTE 31, 2020	RAND	
S	A. W. W.	QUARTE		YEAR ENDED	
No.	Particulars	31.03.2020 Un-Audited	31.03.2019 Un-Audited	31.03.2020 Audited	31.03.2019 Audited
1	Total Income from Operations	601.26	434.25	1162.52	216.57
2	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	(9.98)	455.54	2.02	-9.29
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/Extraordinary items)	(10.53)	464.54	1.47	-0.29
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Excceptional/Extraordinary items)	(10.53)	464.54	1.09	-0.29
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)	(10.09)	464.54	1.09	-0.29
ő	Equity Share Capital	449.8	449.8	449.8	449.8
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	0	0	0.00	0
8	Earning Per Share(Face Value of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations)				
i	Basic	(0.02)	1.03	0.002	-0.001
ii	Diluted	(0.02)	1 03	0.002	-0.001

TRIDEV INFRAESTATES LIMITED

[Formerly Known as Ashutosh Paper Mills Ltd]
[IR NO: L59100_1889H_C033812 Pt: 011-42508710
269 GJF Triveni Apartment Sweyam Sews CGHS Limited Jihimil Colony Delhi East Delhi DL 110095
Websits "www.tridevinfraestates.in E-mail ID - ashutoshpapermills@gmail.com
AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

S.	C 40 01	QUARTE	R ENDED	YEAR ENDED		
No.	Particulars .	31.03.2020 Un-Audited	31.03.2019 Un-Audited	31.03.2020 Audited	31.03.2019 Audited	
1	Total Income from Operations		(4.02)	1.45	1.68	
2	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	(2.28)	5.92	1.68	7.66	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/Extraordinary items)	(2.28)	5.92	1.68	7.66	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Excceptional/Extraordinary items)	(2.18)	4.32	1.24	5.67	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)	(2.18)	4.32	1.24	5.67	
6	Equity Share Capital	652.54	652.54	652.54	652.54	
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-		~		
8	Earning Per Share(Face Value of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
i.	Basic	(0.030)	0.066	0.019	0.090	
ii	Diluted	(0.030)	0.066	0.019	0.090	

Note: The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 31st March, 2020, filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on Company's website www.fredevinfreastlasts.

Sunil Kumar Agarwa Managing Director

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED 5° Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azaupur, office: Floor 1 & 3, Plot No. 97, Sector-44, Gurugram, Haryana-12: CIN: Le5991DL1999PLCC041796, Phone: (0124) 4715 409 www.satincreditcare.com Email Id: secretarial⊚satincredi

NOTICE OF THIRTIETH ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE DATES AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, August 5, 2020 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") to transact the business, set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the Notice of AGM on July 11, 2020, through electronic mode to the Members whose omail addresses are registered with the Company I Depositions in accordance with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") dated May 5, 2020 read with Circulars dated April 13, 2020 by and April 8, 2020 (collectively referred as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated May 12, 2020. The Annual Meport for the 1-Y 2019-20 is available and can be downloaded from the Company's website

www.satincreditcare.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Naue 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rule") (including any statutory modification orre-enactment thereof for the time being in force), guidelines presorbed by the MCA the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (e-voting) provided by CDSL. The voting of Members shall be in proportion to the equity shares had by them in the pairst shares had by them in the pairst shares had by them in the pairst shares had by the min the pairst shares had by the min the pairst share shall be in proportion to the pairst shares had by them in the pairst share shall be in proportion to the pairst shares had by them in the pairst share shall be in Proportion to the Proportion to the pairst shares had by the pairst shares the pairst share the pairst shares the

uty 24, 2020 ("Cutro-drate").

The remote e-voling period commences on Sunday, August 2, 2020 (10:00 a.m. IST) and ends on useday, August 4, 2020 (5:00 p.m. IST), During this period, Members may cast their vote electronically, the remote e-voling module shall be disabled by CDSI. Interatifier, Tissoe Members, who shall be research in the AGM through VC and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be elligible to vote through remote e-voting system furing the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participa in the AGM through VC but shall not be entitled to cast their votes again.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013, Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed for the purpose of 30th AGM from Thursday, July 30, 2020 to Wednesday, August 5, 2020 (both days inclusive).

August 5, 2020 (both days inclusive).

Any person, who acquires shares and become Members of the Company after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the Register of Members of the Company or in the the AGM by the Company and whose name appear in the Register of Members of the Company or in the Statement of Beneficial Ownership maintained by Depositories as on cut-off date (e. July 29, 2020 can view the Notice convening the AGM on the website of the Company viz. www.satincreditcare.com website of the Stock Exchanges of that Limited at twww.besited of the Stock Exchanges of that Limited at twww.besited.com and www.nseindia.com are psectively and on the website of to CDISL viz. www.satindia.com Such Members can exercise their voling rights through e-voling by following the procodure as mentioned in the said Notice of the AGM.

ime procedure as memoricine in me said viorus or trine Ausia. Members are also informed that in case you have any queries or issues regarding e-voling, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAOs") and e-voling manual available at www.evotingindia.com. under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nihir Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058545) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058545) or Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL). Central for voling by alectricin means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL). Central Depository Services (India) Limited. A Wing, 25th Floor, Marathon Futures, Mafattal MII Compounds N. M. Josh Marq. Lower Parel (East), Mumbel -400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdalindia.com or call 1800225533 /022-23058542/43.

By order of the Board of Directors For Satin Creditcare Network Limited

Adhish Swaroop (Company Secretary & Compliance Officer) Place: Delhi Date: July 11, 2020



			Consolidated							
Particulars	Quarter ended 31 March 2020 (Unaudited)	Quarter ended 31 December 2019 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2019 (Unaudited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)	Year ended 31 March 2019 (Audited)	Quarter ended 31 March 2020 (Unaudited)	Quarter ended 31 December 2019 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2019 (Unaudited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)	Year ended 31 March 2019 (Audited)
Total income from Operations	1,788.32	1,132.18	1,532.79	5,202.45	4,415.10	1,873.35	1,210.95	1,797.20	5,391.51	4,798.43
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items)	161.51	158.27	223.59	* 672.57	615.18	155,17	164.10	227.29	671.99	624.26
Net profit / (loss) (before tax & after exceptional items)	161.51	158.27	223.59	672.57	615.18	155.17	164.10	227.29	671.99	624.26
Net profit after tax	122.42	138.43	95.59	*489.78	*444.68	115.40	142.43	99.71	485.31	450.07
Total comprehensive income	121.68	132.63	81.29	486.83	436.89	114.65	136.64	85.41	482.35	442.28
Equity share capital	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve)	-	3	(7)	4,067.08	3,855.49	-	2	-	4,077.27	3,870.17
Earnings Per Share (not annualized) (Face Value of ₹10/- each)										
(a) Basic (in ₹)	13.02	14.72	10.16	52.08	47.28	12.27	15.14	10.60	51.60	47.85
(b) Diluted (in ₹)	13.02	14.72	10.16	52.08	47.28	12.27	15.14	10.60	51.60	47.85

* Net Profit after tax includes Rs. 26.58 crore (as on March 2019: Rs. 50.89 crore) for Income tax refund for earlier year's Assessments. *Includes write back / reversal of Agency Commission during the quarter ended 30th June 2019 payable for foreign projects for an amount of Rs. 84.13 crore.

The above Standalone and Consolidated financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th July 2020 and have been audited by Statutory auditors of the company. The Statutory auditors have expressed an unmodified opinion.

company. The Statutory auditors have expressed an unmodified opinion.

2 The Standance and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind.AS) an orbited under Section 133 of the Companies (and AS) an orbited under Section 133 of the Companies (and AS) and Accounting Standards (Nuke, 2015 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

3 The above is an extract of the exclusive formation of the internacial results that with the Stock Exchange under Regulation 30 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended 1. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of SES (town besindia.com/corporates), NSE (owww.nesrelia.com/corporates), NSE (oww.nesrelia.com/corporates).

4 The shareholders of Company through postal Ballot on 22nd March, 2020 have

 Split the face value of one equity share from Rs. 10/- each into five equity shares of Rs. 2/- each which have been reflected at Stock exchanges w.e.f. 3rd April, 2020. (ii) Amended the Capital Clause in the Memorandum of As-

5 The BoD has recommended a Final Dividend of Rs. 2.06 per equity share on face value of Rs. 2.1- per equity share for the financial year 2019-2020, subject to the approval of the shareholders at the AGM Thie is in addition to Interim Dividend paid @ Rs. 13.45 per Share on face value of Rs. 101- per equity share.

For and on behalf of Ircon International Limited S. K. Chaudhary Chairman & Managing Director DIN No.: 00515672



IRCON INTERNATIONAL LIMITED (A Government of India Undertaking)







घाटी के राजौरी जिले में सख्त पूर्णबंदी लागू भारत की 2018 बाघ गणना गिनीज बुक में शामिल

जम्मू, ११ जुलाई (भाषा)।

जाम्-कर्मार के राजीरी जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में जुढ़ि के बाद कई हिस्सों में शनिवार को सख्त पूर्णबंदी लागू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे राजीरी शहर और उससे लगे इलाकों को सील कर लोगों को धर्म में मड़ने के लिए कहा गया है ताकि संक्रमण के फैलने की रफ्तार को कम किया जा सके।

या जा सक। राजौरी जिले में शुक्रवार को एक दिन में राजारा जिल में शुक्रवार की एक दिन में कोरोना विषाणु से संक्रमण के सबसे अधिक 51 मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 240 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा

केंद्र से भारतीय

मछुआरों की

वापसी के लिए

अनुरोध

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से राज्य के 40 मछुआरों को इंगन से स्वदेश लाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। उन्हें जहाज में जगह न होने के

कारण ईरान में छोड़ दिया गया था।

फारण इरान म छाड़ दिया गया था। यह जहाज एक जुलाई को ईरान से मछुआरों को लेकर आया था। बिदेश मंत्री को 10 जुलाई को लिखे पत्र में पलानीस्वामी ने 10 मई को किये उन्हों करने

जुजार जा तिखं अपने पहले के ने 19 मई को लिखे अपने पहले के पत्र का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने ईरान में फंसे मछुआरों को तमिलनाडु लाए जाने का अनुरोध

किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'एक जुलाई
2020 को आइएनएस जलाएव से
681 मछुआरों को सुरक्षित
तिसलनाडु लाया गया और उसके
लिए मैं आपका शुक्रिना अदा करता
हूं। जहाज में जगह न होने के कारण
तमितनाडु के करीव 40 मछुआरों

को छोड दिया गया था। मैं उन्हे पत्र हाड़ रिया गया था ने उन्हें विशेष विमान से जल्द से जल्द तमिलनाडु लाए जाने की व्यवस्था करने का आपसे अनुरोध करता हूं।' हाल ही में माकपा के प्रदेश

में बिना किसी नौकरी और आम के फंसे हुए राज्य के मछुआरों को वापस लाए जाने की मांग की थी।

रायबरेली में

सडक हादसे में चार की मौत. दो घायल रायबरेली, ११ जलाई (भाषा)। शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहा के पास शुक्रवार की रात सिविल लाइंस चौराहे की

किया था।

सचिव के. चिव के. बालकृष्णन ने लानीस्वामी को पत्र लिखकर ईरान

चेन्नई, 11 जुलाई (भाषा) I

चुके हैं, जिनमें बाहर से आए 171 लोग हैं। इस संक्रमण से एक रोगी को मौत हो चुकी है वहीं अवतक 88 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राजौरी के अतिरिक्त उपायुक्त शेर सिंह ने कहा, ह्युकुछ स्थानीय लोगों के कोरोना विषाणु

से संक्रमित पाए जाने के बाद ऐहतियाती तौ पर दोबारा पार्बोदयां लगा दी गई हैं। अधिकतर मामलों में संक्रमण के स्रोत का पता चल चुका है जबकि कछ मामलों में इसका पता नहीं चल ह जवाक कुछ मामला में इसका पता नहीं चल पाया है ह्न इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उनके नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने तक जिले में पार्विदयां जारी रहेंगी।

गोवा के मुख्यमंत्री का पूर्णबंदी से इनकार

पणजी, 11 जुलाई (भाषा) 🛭

गोवा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में पूर्णबंदी की किसी भी संभावना से इनकार

दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'कोरोना विषाणु के बारे में लोगों को जागरूक करने और जानकारी देने के लिए शुरुआत में पूर्णबंदी लगाया गया था। वह वक्त अब आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए**।**

ता दी गुजर गया है।' गुजर गया है।' चुक्रवार तक गोवा में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 2,151 थी जिनमें से 1,347 लोग की किस्ता भा समाधाना सं इनकार । जानी वर्षिया । गुकराव तक गोवा में सक्तम है । मुकराव ते चेताल से बातचीत में कहा कि 'अनत्वोंक' की संख्या 2,151 थी जिनमें से 1,347 लोग प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब आर्थिक उपचाद के बाद ठीक हो गए वहीं नी लोगों गतिबिधियों को प्रारंभ करने को प्राथमिकता की संक्रमण से नीत हो चुकी है।

भारत की 2018 बाघ गणना ने भारत का 2018 बाघ गणना न कैमरा ट्रैपिंग के जरिये दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में जगह बनाई है।

बनाइ है। प्यावस्था मंत्री प्रकाश अखिल भारतीय बाघ जाडबेकर ने ट्वीट अनुमान 2018 के चौथे चक्र में किया, 'अखिल देश में 2,967 बाघों विश्व के भारतीय बाघ अनुमान कुल बाघों की 75 प्रतिशत संख्या अब शिना यन्ध्र का अनुमान लगाया गया। रेकॉह्स में सबसे बड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल विश्व बाघ दिवस के मौके पर इसके परिणामों की

घोषणा की थी। इस उपलब्धि को एक महान क्षण करार ■ LIC भारतीय जीवन बीमा निगम सार्वजनिक सूचना

एक महान ् देते हुए, केंद्राय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट िन्मा. 'अखिल - थनमान जावरुपः किया, 'अखिल भारतीय बाघ अनुमान - गिनीज वर्ल्ड

ते पर स्थानान्तरित हो रहा है। भवन—2 बिल्डिंग सातवाँ तल, नवल किशोर जरतगंज लखनऊ—226001 वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक

सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड

तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक, पुस्तकें बंद होने की तिथि तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद द्वारा सुवित किया जाता है कि कंपनी की तीसवी वार्षिक सामान्य बैठक ('एमसीए') बुधवार 5 अगस्त, 2020 को प्रातः 10-3 बजे ('आईएसटी'') वीडियो कॉनफ्रेंसिंग ('वीसी'') के माध्यम से, एजीएम के लिए सूचना के अनुसार व्यवसाय के लेन—देन करने वें लिए, आयोजित की जायेगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी परिपन्न दिनांक 5 मई, 2020 को 13 अप्रैल, 202 और 8 अप्रेस, 2020 के साथ पढ़ा जाए (सामृहिक कर से ''एमसीए परिपन'' के रूप में सदिनित) तथा सेवी द्वारा जारी परिपन दिनार 12 मई, 2020 के अनुसार कंपनी के एजीएम की सूचना 11 जुलाई, 2020 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है जिनके ईमेल कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत है, वित्त वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइ: www.satincreditcare.com पर उपलब्ध है अथवा वहां से आउनलोड की जा सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की बाल 108 और कंपनी (प्रकंपन और प्रशासन) नियम, 2014 (**'नियम'**) के नियम 20 किसी भी वैधानिव संकोचन या इसके लागू, होने के बाद गुरू- लागू करने सहितों के अनुगालन में क्या एमसीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग सिस्टम (ई-बोटिंग) की सुविधा सभी प्रस्तावों जो कि एजीए निटिस में है, पर मतदान के लिए प्रदान कराई में है । सदस्यों का मतदान 29 जुलाई, 2020 (**"कट-ऑफ डेट"**) के अनु कंपनी की चुकता इविवटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इविवटी शेयरों के अनुपात में होगा।

रूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि रविवार 2 अगस्त, 2020 (सुबह 10:00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और मंग . गाम 5:00 बजे। समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। दरस्थ ई-वोटिंग राता उठक कर्मा तमान होना हुए काला कर कराने, पाता कर कराने काला कर करने कर करने कर स्वास्थ्य हुन्यार मेंबबुद को उसके बाद सीडीएसएस द्वारा निकिम कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो बीसी के माध्यम से एजीस में उपसिक्त हों और उन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, एजीएम वे दौरान दुरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।

जन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई—वोटिंग द्वारा अपने वोट ढाले हैं, वे मी वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सर या भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

सेबी (लिस्टिंग दायित्वो और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियमन 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अनुसार, सदस्यों का रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तक गुरुवार, 30 जुलाई 2020 से बुववार, 5 अगस्त, 2020 (वी दिन सम्मिलित) कंपनी की 30वी एजीएम के लिए बंद रहेगी।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी द्वारा एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है, औ जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रंजिस्टर में या कट-ऑफ डेंट के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी स्वामित्य के विवरण में यानी 29 जुलाई, 2020, में दिखाई देता है वह कंपनी की वेबसाइट <u>www.satincreditcare.com</u> एवं स्टॉक एक्सकेंज बीएसई लिमिटेड एपं नेकनल स्टॉक एक्सफेंज लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com रूप सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर नोटिस देख सकते हैं। वह सदस्य एजीएम के नोटिस में लिखी प्रक्रिय का पादन करके ई-वोटिंग के मध्यम से अपने मदाना के अधिकार का चपयोग कर सकते हैं।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी संदेह ⁄ शिकायत के मामले में आप <u>www.evotingindia.com</u> पर उप frequently Asked Questions ("FAQs") तथा ई—वोटिंग मैन्युअल देखे अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com व ार्विक प्रतिकृति के स्थित है जिस है लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** या 1800225533/022—23058542/43 प कॉल या ई-मेल कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेश सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड के वि

हस्ता /— अधीश स्वरूप (कंपनी संचिव और अनुपालन अधिकारी)

उसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. द कॅपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली—6: कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल70100एमएच1977पीएलसी019916, नेबसाइट : www.hdfc.com मांग सूचना

अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अधीन।

सामान्य कार्य अवधि में प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त के संदर्भ में कथित ऋणी (यों) / कानूनी उत्तराधिकारी(यों) / कानूनी प्रतिनिधी(यों) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि ऋण करार और ऋणी व क्रियानित/ लिखित अन्य दस्तावेजों, यदि कोई हो, के अनुसार इस तूचना के प्रकाशन की लिखि से 60 दिनों के अंदर उनके नाम उल्लिखित राशियों के साथ-साथ मिन्निशिंदित कोलम (ग) में उल्लिखित लिथियों से मुताना और/या प्राप्ति की तिथि तक 18% सालाग की दर से मांग सूचनाओं में उल्लिखित व्याव की राशि का एक्सीएक्सी तिमिटेड को मुताना कर में हम्म का नियत पुनर्गृततान सुनिश्वत करने के लिए कथित ऋणी की एक्सीएक्सी तिमिटेड के यास क्रमशः निम्निलिखित प्रतिमृत सर्पति गिरधी रखी हैं:

क्र. सं.	ऋणी (यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधी(यों)/गारंटर का नाम	कुल बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	प्रतिमूत सम्पत्ति(यों)/ अवल सम्पत्ति(यों) का विवरण
(ক)	(평)	(ग)	(EI)	(ড)
1.	श्री अशोक कुमार, श्रीमती लता रानी गोयंका एवं श्री सूरज कुमार (गारंटर) (खाता सं: 625958369 और 625901044)	रु. 2,54,64,792 / — (रुपये दो करोड़ चौवन लाख चौंसठ हजार सात सौ बयानवे मात्र)	17 मार्च, 2020	प्लॉट नं. 9, रोड नं. टी-12, डीएलएफ कुतुब एनक्लेट कॉम्प्लेक्स, डीएलएफ फेस ।।।, गाँव नाथपुर, गुडगाँव हरियाणा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
2.	श्री देवाशीष डोमिनिक गोम्स (खाता सं.: 612389844)	रु. 6,82,862 / — (रुपये छह लाख बयासी हजार आठ सौ बासठ मात्र)	31 दिसम्बर, 2019	फ्रीहोल्ड जनता प्लैट नं० ३९६, द्वितीय तल, सैक्टर ए६ ब्लॉक-7, पॉकेट-11, डीडीए नरेला, नरेला, नई दिल्ली के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार (खाता सं: 581159189)	रु. 6,32,417 / – (रुपये छह लाख बत्तीस हजार चार सौ संत्रह मात्र)	20 मार्च, 2020	मकान नं0 391 (प्लॉट नं0 391) ब्लॉक—।, सैक्टर अल्फा—।।, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
4.	श्री अशोक कुमार एवं श्रीमती लता रानी गोयंका (खाता सं.: 617291340)	रु. 93,57,770 /— (रुपये तिरानवे लाख सत्तावन हजार सात सी सत्तर मात्र)	17 मार्च, 2020	पलैट नं. पी041902, बिल्डिग नं. पी 04, 18वीं मंजिल सरे क्रिसेंट पार्क: पी04 (पेटिओलेस), गांव वजीरपुर और मेवाक, सैक्टर 92, गुडगाव, हरियाणा कं साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
5.	श्री अशोक कुमार एवं श्रीमती लता रानी गायंका (खाता सं.: 617291151)	रु. 93,54,089 / – (रुपये तिरानवे लाख चौवन हजार नवासी मात्र)	17 मार्च, 2020	पलैट नं. पी030602, बिल्डिंग नं. पी-03, छठी मंजिल, सरे क्रिसेंट पार्क: पी03 (पेटिओलेस), गांव वजीरपुर और मेवाक, सैक्टर 92, गुडगांव, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
6.	श्री मयूर कुमार एवं श्रीमती मंजू अग्रवाल (खाता सं.: 622883448)	रु. 2,31,56,015 / – (रुपये दो करोड़ इकत्तीस लाख छप्पन हजार पंद्रह मात्र)	17 मार्च, 2020	विला नं0 14/3, टाईप-X, कचनार मार्ग – 42 डीएलएफ कृतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स, डीएलएफ सिटी फेज– I, डीएलएफ सिटी, गांव चक्करपुर, गुरुग्राम, हरियाणा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
7.	श्री सूरज कुमार (खाता सं.: 615127036)	रु. 66,56,716 /— (रुपये छियासठ लाख छप्पन हजार सात सौ सोलह मात्र)	17 मार्च, 2020	पलैट नं. 805, आठवीं मंजिल, केएसएन स्क्वायर, प्लॉट नं. 12—14, सैक्टर 3, वसुंघरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
8.	श्री सूरज कुमार (खाता सं: 615126815)	रु. 66,45,289 / – (रुपये छियासठ लाख पैतालीस हजार दो सौ नवासी मात्र)	17 मार्च, 2020	पलैट नं. 804, आठवीं मंजिल, केएसएन स्वचायर, प्लॉट नं. 12–14, सैक्टर 3, वसुंघरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
9.	श्री राज कुमार साहू एवं सुश्री सिप्रा दाशमोहापात्रा (खाता सं.: 607858890)	रु. 27,89,486 / — (रुपये सत्ताईस लाख नवासी हजार चार सौ छियासी मात्र)	19 दिसम्बर, 2019	फ्लैंट नं, बी-102, प्रथम तल, एवीजे ऐस रिस्टी टॉवर बी, फ्लॉट जीएच-01, सैक्टर न, ग्रेटर नोएडा (वैस्ट), ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
10.	श्रीमती रीमा गोयल एवं श्री विनय गोयल (खाता सं.: 607730186)	रु. 46,73,151 / – (रुपये छियालीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ इक्यावन मात्र)	17 अक्टूबर, 2019	यूनिट नं. एव 203, जेपी ग्रीनक्रेस्ट होम्स एव, सैक्टर 25 जेपी ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी, एसडीजैंड, यमुना एक्सप्रेसवें ग्रेटर नोएडा, जिला— गौतम बुद्ध नगर और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।

अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवाल अतुल कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि घटना में घायल हुए छह लोगों को जिल अस्पताल पहुंचाया गया। जिसमें चिकित्सकों ने विनय कुमार वर्मा, शिवम् साहू, विनोद और रूपेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं रोहित सोनकर और गिरिजा शंकर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल से इलाज के लिए लखनक रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।

का रात सिवल लाइस चौराह की और से आ रही एक सफारी जीए दो बाइक सजार और एक युवक को टक्कर मारने के बाद पलट गई। इसमें चार लोगों की मीत हो गई, जबिक दो अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मीके पर पहुंची और अभी घटनों को जिला

और सभी घायलों को जिल

श्रीमती अंजलि शर्मा

खाता सं: 613578111)

(खाता सं: 613578056)

13. श्री प्रतीक शुक्ला (खाता सं: 615740880)

श्री सरज कमार

15. श्री श्रेयांश जैन (खाता सं: 615603876)

खाता सं: 615121494)

मुंबई के शॉपिंग मॉल में लगी आग. कोई हताहत नहीं

मुंबई, 11 जुलाई (भाषा)**।**

मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र बोरीवली स्थित एक शॉपिंग मॉल में शनिवार तड़के भयंकर आग लग गई। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बोरीवली में एसवी मार्ग स्थित इंद्रप्रस्थ मॉल के तहस्वाने में तड़के लगभग तीन बजे आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि यह मॉल तीन मंजिला है और एक तहखाना भी है। आग तहखाने में लगी और दो मंजिलों तक फैल गई।

₹. 36 28 380 /-(रुपये छत्तीस लाख अड्डाइस हजार तीन सौ अस्सी मात्र)

रु. 36,23,726/– (रुपये छत्तीस लाख तेईस हजान् सात सौ छब्बीस मात्र)

रु. 1,03,11,129 /— (रुपये एक करोड़ तीन लाख ग्यारह हजार एक सौ जनतीस मात्र)

ō. 2,66,27,207 / (रुपये दो करोड छिसासठ लाख

सत्ताईस इजार दो सौ

सात मात्र)

रु. 35,28,662 / – (रुपये पैतीस लाख अड्डाइस हजार छह सौ बासठ मात्र)

साथ ही, 18% सालाना व्याज जैसा कि लागू है, संबंधित खर्चे, हर्जाना, शुल्क आदि जो पुनर्भुगतान और / या प्राप्ति तक दिए गए। त्यां देश हो काराना अन्य जिला होता है। जानति वड़े, लागति हो अपूर्ण भाग अपूर्ण किया हो का मुगतान करने में अदि इसके वाद भी ऋणी(यी) को नृत्यी जत्यांकिको(यो) / कानूनी प्रतिनिर्धा(यो) एक**डीएफसी लिमिटेड** को उपरोक्त यांत्री का मुगतान करने में असफल रहता है तो एकडीएफसी लिमिटेड उपरोक्त प्रतिमृत संपत्ति / असल संपत्ति पर कथित अभिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्यवाही शुरू करेगी और संविति नियम लागाएंगी जिसके किसी जोखिम जैसे खर्च और दुष्परिणाम के लिए केवल ऋणी (यो) / कानूनी जत्तराधिकारी(यो) / कानूनी प्रतिनिष्धी(यो) जिम्मेदार होगा।

2020

कहित अधिनियम के तहत **एउडीएफसी सिमिटेड** की लिखित अनुमति के बिना ऋणी (यो)/कानूनी उत्तराधिकारी(यो)/कानूनी प्रतिनिधी(यो) के लिए बिकी, लीज़ या अन्य किसी माध्यम से प्रतिमृत संपत्ति /अचल संपत्ति इस्तांतरित करने पर प्रतिबंध है। इस अधिनियम के प्रावधानों या इनके अंतर्गत बने नियमों का खुद उल्लंघन करने या उल्लंघन को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र और/या जुर्माना किया जा सकता है।

कते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉपॉरेशन लि

प्राधिकृत अधिकारी

फ्लैट नं. 1102, 11वीं मंजिल, टॉवर 10, सनवर्ल्ड एरिस्टा, प्लॉट जीएच—1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर

पलैट नं. 1101, 11वीं मंजिल, टॉवर 10, सनवर्ल्ड एरिस्टा, प्लॉट जीएथ–1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसचे, नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।

फ्लैट नं. 1702, 17वीं मंजिल, टॉवर—1, सनवर्ल्ड एरिस्टा, प्लॉट जीएच—1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेससे, नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविमाजित आनुपातिक हिस्सा।

रोड टी–28 पर मकान नं. 9, प्लॉट टी–28/09, डीएलएफ कुतुब एनवलेव कॉम्पलेक्स (वर्तमान मे डीएलएफ सिटी के रुप में जाना जाता है), डीएलएफ

कंज—3, गांव नाथूपुर, गुड़गांव, हरियाणा और उस फ वर्तमान एवं भावी निर्माण।

पलैट नं. 1703, 17वीं मंजिल, टॉवर 10, सनवर्ल्ड एरिस्टा, प्लॉट जीएथ-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसये, नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निघली भूमि पर अविमाजित आनुपातिक हिस्सा।

अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।

पंजीकृत कार्यालय : रेमन भवन, एचटी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई- 400020

स्थानः दिल्ली दिनांकः 11 जुलाई, 2020 टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड जाह्या का पता. त्यों तल, विदेवीकॉन टावर, ग्रुपदेवालान एक्स्ट्रेशन, नर्ड दिल्ली-110,

ऋण खाता	देनदाव(री)/ कानूनी	अद्यतन संस्थाया	प्रतिनृत परिसम्पत्तियो का सिसरण	कस्ताका प्रकार	आरक्षित मुख्य
	उत्तरीधिकारियों/ कानुनी	देवता	-	रसमातमक/भौतिक	ई एमदी
y .	प्रतिनिधियों का नाम				
7177233	हारा उसके प्रॉप./प्रापिकृत हरताश्वरकर्ता	रः 10401204.36/- (रूपए एक करोव चार लाख एक हजा- यो सी चार तथा पैर्ट छत्तीस मात्र)	कर्तने थी. जो कर तीमा के या पार्च में किए की क्रिया में क्रिया में कहान देना करते. हिम्म देना देना है, जारा, तो क्रिया में देना है, जारा, तो क्रिया में देना है, जारा, तो है, जारा में देना होता है, जारा में देना है, जारा में देना होता है, जारा है, जारा में देना होता है, जारा है, जार		वर्षणी सं. 1: क. 19,00,000- (रूप दुर्मीय वास्त्र साम अ वर्षणी सं. 1 के रिष्णु प्रेयमधी सं. 1,90,000- (रुपर एक लाख रुपर एक लाख सम्मान कर रुपर एक लाख रुपर एक रुपर एक लाख

क्षेत्रियात प्रदृष्ण अध्या अर्थित्यात करा ये तर्था के लिए अपनी वर्धाव्या सोमार्थ बहुए कर राक्ष के हैं। क्षण के लिए होंचे महार की स्वाप्ति का शिवारण अरुपूर्ण में हैं । वीद किंगुल अरिकारी के पात अरुपूर्ण में राख्यें काले, अब्बा लागा (क्षित) ताला आंक्षेत्र के लिए प्रमाण का अर्थ में आई के लिए हाएं के स्वाप्ति के लिए प्रमाण का अर्थ में आई अरुपूर्ण में राख्यें के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त का अरुपूर्ण में राख्यें के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स

- अस्त भावश्व क्रम वार्त्र पातं प्रतिक क्षी इसिक्का अधिकारी के पात तत्काल पर्योक्त प्रक्रम तृत्य का भुगालन करता होगा तथा उसमें रिक्का को पर सामर्था की रित ते क्षित्र की वार्षित क्षम प्रति के परित के परित की प्रति के प्रति अधिक को अधिक को प्रति के प्रति उसके का अधिक को प्रति के प्रति उसके का अधिक को प्रति के प्रति उसके का अधिक को अधिक को उसके हैं तथा के प्रति के के प्रति उसके का अधिक को अधिक को उसके अधिक को अधिक के अधिक को अधिक को

www.readwhere.com